



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र
विशेषांक**

साइरिक प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

**भाद्र 28, गुरुवार, शाके 1941–सितम्बर 19, 2019
Bhadra 28, Thursday, Saka 1941–September 19, 2019**

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur September 04, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/8542 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Chomu has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Chomu. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

**By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Governement.**

कार्यालय, नगर पालिका मण्डल, चौमूँ जयपुर (राज.)**प्रोफार्मा “क”**

वार्ड संख्या	विवरण	वार्ड की जनसंख्या
1	रघुनाथदास जी बगीची से शुरू होकर उत्तर में बागडियों की ढाणी, नन्द वाटिका, अग्निशमन केन्द्र, पेट्रोल पम्प होकर मांगीलाल की बगीची से तरफ पञ्चम में नगर पालिका सीमा सीमा चलते हुए चांदजी वाली ढाणी को छोड़ते हुए मनोज कुमावत पार्षद की ढाणी को शामिल करते हुए, नानूराम सैनी पूर्व चैयरमैन, चन्दालाल सैनी, राजकीय स्कूल को छोड़ते हुए तरफ पश्चिम नाले नाले बारावालों की ढाणी, गगा बिहार कालोनी, रतन बिहार कालोनी शामिल करते हुए, नाईकों के आमों को छोड़ते हुए रेंगरों के नाले तक तरफ पूर्व में नाले में रोड रोड चलते हुए भैरूजी तक तरफ उत्तर में दम्बीवालों की ढाणी को शामिल करते हुए, रघुवीर कालोनी, मोबाईल टावर से रामदयाल जलुथरिया, कैलाश कुलदीप, कैलाश राणा एवं सतोंष कुलदीप को लेते हुए, रघुनाथ दास जी की बगीची तक।	1620
2	राजकीय ऊ. प्रा. विधालय नं. 10 से तरफ उत्तर पूर्व में चलते हुए नानूराम सैनी पूर्व चैयरमैन, चन्दालाल सैनी को लेते हुए चांदजी वाली ढाणी को शामिल करते हुए एमजेएफ इंजिनियरिंग कालेज को शामिल	1452

	करते हुए तरफ पश्चिम में नगर पालिका की सीमा चलते हुए भीतों की ढाणी प्याऊवाली ढाणी से तरफ दक्षिण पश्चिम चलते हुए कांकरिया वाली ढाणी को लेते हुए तरफ दक्षिण में चलते हुए गोदावरों को छोड़ते हुए बांये हाथ का क्षेत्र तोबड़ों की ढाणी लेते हुए तरफ पूर्व में मंगल जी बाज्या की ढाणी को लेते हुए नाईकों के आमों को छोड़ते हुए तरफ पूर्व में नाले-नाले चलते हुए बारावालों की ढाणी को छोड़ते हुए कैलाश कुमावत को शामिल करते हुए राजकीय उ. प्रा. विधालय नं. 10 तक	
3	गोदावरों से तरफ दक्षिण पश्चिम में जोधपुर की सीमा होते हुए नानू यादव लाईनमैन की ढाणी शामिल करते हुए रेलवे लाईन तक पूर्व में रेल लाईन के सहारे सहारे तेजाजी के मंदिर को छोड़ते हुए कांटे को लेते हुए कालूराम जाट पूर्व वाईसचैयरमेन की ढाणी, छुट्टन यादव की ढाणी शामिल करते हुए गणपति बिहार, नवल यादव शामिल करते हुए पोस्ट आफिस तक तरफ उत्तर में रोड रोड चलते मोहन रोलावण टाईपिस्ट को शामिल करते हुए रोड रोड चलते हुए बायें हाथ के क्षेत्र को शामिल करते हुए दुल्हासिंह की ढाणी चैराहे तक पूर्व चलते हुए बायें हाथ का क्षेत्र शामिल करते हुए रुडजी की बगीची तक यहां से तरफ उत्तर में चलते हुए गोदावरों, फगोडिया को शामिल करते हुए बिसनालियां, लाला मोटावाली को छोड़ते हुए तरफ पश्चिम में द्वारकापुरी, दुलासिंह की ढाणी शामिल करते हुए तोबड़ों को छोड़ते हुए गोदावरों तक	1511
4	तेजाजी के मन्दिर से रेनवाल रोड गोपाल भूरा माली के मकान को शामिल करते हुए तरफ पश्चिम दिशा में चलते हुए दाहिने हाथ का समस्त क्षेत्र सूरजाराम माली मिठी प्याऊ का क्षेत्र ग्राम जोधपुर की सीमा होते हुए एवं रेनवाल रोड के दक्षिण में रूपा मालण की ढाणी, शिवसहाय कुमावत की ढाणी को शामिल करते हुए कालूराम जाट की ढाणी को छोड़ते हुए सड़क सड़क पूर्व दिशा में चलते हुए भोडियों की ढाणी को शामिल करते हुए पांच्या की ढाणी छोड़ते हुए छीतर माली को शामिल करते हुए रेलवे लाईन तक तरफ उत्तर रेलवे लाईन होते हुए तेजाजी अण्डर पास तक	1299
5	पांच्या की ढाणी, अण्डर पास से रेलवे लाईन के सहारे तरफ उत्तर छीतर माली के मकान को छोड़ते हुए तरफ पश्चिम पांच्या की ढाणी को लेते हुए रोड रोड बाये हाथ का क्षेत्र शामिल करते हुए कालूराम जाट की ढाणी रा. प्रा. वि. को शामिल करते हुए आडा गेला की ढाणी को शामिल करते हुए नगर पालिका सीमा-सीमा चलते हुए बोहरों की ढाणी छोड़ते हुए तरफ पूर्व चलते हुए पानी की टंकी को शामिल करते हुए रामपाल रावल्या की ढाणी को छोड़ते हुए सिंगलवाली ढाणी, गुरुकुल आईटीआई के पास वाली ढाणी लेते हुए, सांसियों को छोड़ते हुए रेलवे लाईन तक तरफ उत्तर रेलवे लाईन के सहारे सहारे बाये हाथ का क्षेत्र शामिल करते हुए पांच्या की	1301

	ढाणी अण्डर पास तक	
6	खादी बाग अण्डर पास से तरफ पश्चिम में राजकीय स्कूल को शामिल करते हुए तरफ उत्तर सासियों व रामपाल रावल्या की ढाणी को शामिल करते हुए पश्चिम में सुल्तानियों को व बोहरावाली को शामिल करते हुए आड़ा गेला की ढाणी को छोड़ते हुए तरफ दक्षिण में चलते हुए महराम की ढाणी को छोड़ते हुए तरफ पूर्व में कांकोडियों को शामिल करते हुए रामलाल कालूराम चौपडा की कालोनी को छोड़ते हुए अहिरों की ढाणी को शामिल करते हुए चक्कीवाले चौराहे तक तरफ पूर्व रोड रोड खादीबाग अण्डरपास तक	1208
7	खादी बाग अण्डर पास से पश्चिम में चलते हुए खादी बाग शहीद बाबा मीणों की ढाणी शामिल करते हुए चक्की चौराहे से अहिरों की ढाणी को छोड़ते हुए कालूराम रामलाल चैपडा की कालोनी को शामिल करते हुए रोड-रोड चलकर महराम की ढाणी को शामिल करते हुए तरफ दक्षिण में गरेडों की ढाणी शामिल करते हुए बिहारीपुरा सीमा तक यहां से तरफ पूर्व में नगर पालिका सीमा-सीमा चलकर बिहारीपुरा रोड हीरालाल पण्डा की ढाणी, खडोलियों की ढाणी को शामिल करते हुए बिहारीपुरा फाटक तक तरफ उत्तर रेलवे लाईन के सहारे सहारे मीणों कालोनी, सत्यनारायण जांगिड, भगवानसहाय सैनी के मकान को सम्मिलित करते हुए खादी बाग अण्डर पास तक	1162
8	रेल्वे स्टेशन मोती सांसी को लेते हुए यहां से पूरब की ओर संतोषी माता का मन्दिर न्यू कालोनी को शामिल करते हुए 4 नं. स्कूल, मिर्ची वाली ढाणी शामिल करते हुए श्याम मन्दिर रोड तक तरफ पश्चिम रोड रोड बांये हाथ का क्षेत्र लेते हुए मेघराम यादव के मकान से खादी बाग रोड भैंरुजी कलालीया को शामिल करते हुए तरफ पश्चिम में चलते हुए रावलियों की ढाणी को शामिल करते हुए पीडब्लूडी आफिस से तरफ दक्षिण में नन्द जी रावलियों को लेते हुए रेल्वे स्टेशन तक	1380
9	स्टेशन रोड श्याम मन्दिर रोड तरफ उत्तर में चलते हुए बायां क्षेत्र शामिल करते हुए सुभाष सर्किल से तरफ दक्षिण रेनवाल रोड चलते हुए शीश महल पैराडाईज से तरफ दक्षिण रजवाडा रिसोर्ट होते हुए खादी बाग रोड तक तरफ पश्चिम में चलते हुए ब्राइटमून बीएड कालेज को शामिल करते हुए तरफ दक्षिण भैंरुजी कलालियों को छोड़ते हुए श्याम मन्दिर रोड से पूर्व चलते हुए बायें हाथ का क्षेत्र को लेते हुए रेलवे स्टेशन रोड तक	1500
10	रेनवाल रोड शीश महल से तरफ रोड रोड पश्चिम में चलते हुए लक्ष्मी पैराडाईज के पास आनन्द नगर, गुलियों की ढाणी, रेनबो टावर, पंतजली डेयरी, अण्डरपास तक तरफ दक्षिण रेल्वे लाईन के सहारे सहारे चलते बायें हाथ सिंगलवाली ढाणी, वेयरहाउस गोदाम शामिल कर तरफ पूर्व की ओर सारणों की ढाणी शामिल करते हुए खादी बाग रोड चलते हुए रजवाडा	1512

	गार्डन तक	
11	सुभाष सर्किल शहर पनाह गोपाल खाती देबी बाई, ईश्वर बागडा की आरा मशीन, सामुदायिक केन्द्र शहर पनाह की आबादी शामिल करते हुए सिंधी कालोनी नाले तक तरफ पश्चिम बायें हाथ को शामिल करते हुए बालिका आदर्श विधा मंदिर स्कूल छोड़ते हुए शेखावाटी स्कूल शामिल करते हुए, श्मशान पावर हाउस शामिल करते हुए रेनवाल रोड पूर्व में चलते हुए षिव कालोनी, केषव नगर नटवाडियों कालोनी आदि सम्पूर्ण भाग शामिल करते हुए सुभाष सर्किल तक	1493
12	सिंधी नाले से तरफ उत्तर शहर पनाह के सारे सारे चलते हुए होली दरवाजे तक से पश्चिम में चलते बायें क्षेत्र को शामिल करते हुए दुल्हासिंह की चोराहा दिव्या ब्यूटी पार्लर तक चैराहे से दक्षिण में चलते हुए रोड रोड चलते हुए मोहन रोलावण टाईपिस्ट को छोड़ते हुए होली दहन स्थल तक तरफ पूर्व में पावर हाउस के पीछे रोड रोड चलते हुए बायें क्षेत्र में द्वारकापुरी महेश नगर बालिका आदर्श विधा मन्दिर को शामिल करते हुए बाये क्षेत्र को शामिल करते हुए शहर पनाह सिंधी नाले तक	1355
13	होली दरवाजा बाहर रा.प्रा.वि. से शहर पनाह के सारे सारे कुम्हार बाबरों को लेते हुए शिव मन्दिर तक तथा भगवान्सहाय जमादार को लेते हुए बनवारी रमेष, गोविन्द हरिजन, जयकिषन जांगीड, शामिल करते हुए, राजू भूरा कांकरवाल, बाबूलाल प्रभातीलाल बेरीवाले को छोड़ते हुए पूर्व पार्षद अर्जुनलाल सैनी, भौम्या जी मन्दिर विकास नगर चैढाणी बेरी वाली कोठी, मिश्रावाली कोठी, जीवाली कोठी, झूथालाल एँन रामनाथ कुमावत की छोटी ढाणी, नायकों के आमों तक बायें क्षेत्र को शामिल करते हुए तरफ दक्षिण पूर्ण मिस्त्री के मकान को छोड़ते हुए, गोदावरो फगडोलिया को छोड़ते हुए ढाणी लाला मोटावाली की शामिल करते हुए दुल्हासिंह की ढाणी रोड से तरफ पूर्व राजा कालोनी, होली दरवाजा स्कूल तक	1400
14	धोली मण्डी में शहर पनाह के पास फतेहलाल जांगीड, नाथूलाल शर्मा, सुवालाल कुमावत को शामिल करते हुए आयुर्वेद औषधालय तक एवं कुमावत धर्मशाला, शिव मंदिर को छोड़ते हुए जगदीश कुमावत पूर्व पार्षद को शामिल करते हुए राधिका केटर्स स्टेशन रोड दक्षिण चलते हुए बायें हाथ सब रजिस्टर कार्यालय व पूर्वी भाग को शामिल करते हुए स्टेशन रोड से शिव कालोनी में गुलाब सौकिल से शिव कालोनी में घूमते हुए पूर्व में चलकर चन्द्रप्रकाश के मकान से पूर्व में चलते हुए आटा चक्की को शामिल करते हुए तरफ दक्षिण चलते हुए जोशी मार्ग में घुमकर बायें क्षेत्र को शामिल करते हुए लल्लू संत चैराहे से तरफ उत्तर में कमल सिद्ध को शामिल करते हुए तरफ पूरब में सरस्वती विधा विहार को शामिल करते हुए तरफ उत्तर में सुवालाल यादव, शोभाराम यादव, महेन्द्र कुमावत पूर्व	1565

	पार्षद, भोमिया जी का मन्दिर व उदावतों वाली कोठी बराता व यादवों को शामिल करते हुए धोली मंडी तक	
15	थाना मोड तहसीलदार क्वाटर से पश्चिम में धोली मंडी रोड चलते हुए बायें हाथ का क्षेत्र शामिल करते हुए हीराभवन एवं धोली मंडी रोड से तरफ उत्तर में शहर पनाह के सहारे सहारे वृद्धिचन्द्र कुमावत, सावित्री देवी पूर्व पार्षद, जगदीश खाती, कन्हैयालाल कुमावत सोहनलाल मामोडिया ओमप्रकाश कुमावत तक एवं शिव मंदिर धोली मण्डी से तरफ दक्षिण में उदावतावाली कोठी छोड़ते हुये हरिओम ग्लास का मकान, गढ़वालों का मकान, नरसी यादव के पीछे दक्षिण में चलते हुए मालीराम कुमावत, मनोज कुमावत के मकान को शामिल करते हुए सरस्वती स्कूल को छोड़ते हुए तरफ पश्चिम में अर्चना कुमावत चैयरमने नगर पालिका, रामावतार पारीक आदि को शामिल करते हुए लल्लू संत चैरहे से तरफ पूर्व में चलते हुए मोहनलाल सोनी पटवारी को शामिल करते हुए हरि दलाल को छोड़ते हुए काल्या खाना सीमा तक तरफ उत्तर में सीमा सीमा ओमप्रकाश कुमावत बराला गार्डन को शामिल करते हुए तरफ पूर्व में आदर्श विधा मन्दिर, तारा कालोनी को शामिल करते हुए माहेश्वरी पैट्रोल पम्प एवं तरफ उत्तर में एन.एच. पर तहसील भवन शामिल करते हुए थाना चौराहे तक	1546
16	रेल्वे स्टेशन धीया धर्मशाला रा. उ.मा.वि. को शामिल करते हुए रेल्वे लाईन के पास तरफ दक्षिण में बिहारीपुरा फाटक नगर पालिका सीमा से तरफ पूर्व में सीसी सड़क पर चलते हुए सूरज गुलिया को छोड़ते हुए तरफ उत्तर में रामलाल गुलिया, किशोर नगर, तेजाजी के मंदिर को लेते हुए तरफ पूर्व रोड रोड चलते हुए लाम्बों की ढाणी लेते हुए चक्की तक एवं तरफ पूर्व में चलते हुए बायें क्षेत्र प्रिन्स कालोनी को शामिल करते हुए आशुतोष नगर, गोरियों को शामिल करते हुए तरफ उत्तर में चलते हुए बुनकर मौहल्ला हरि दलाल तक काल्या खाना को छोड़ते हुए तरफ पश्चिम में रविन्द्र जोशी, लल्लू संत को शामिल करते हुए बिरदीचन्द्र का मकान तक एवं तरफ दक्षिण में चन्द्रप्रकाश के मकान तक तरफ पश्चिम में चलते हुए बायें क्षेत्र को शामिल करते हुए स्टेशन रोड भगत जी के मकान तक तरफ दक्षिण पश्चिम में बायें क्षेत्र को शामिल करते हुए रेल्वे स्टेशन तक।	1398
17	बिहारीपुरा फाटक से रेल्वे लाईन के पास दक्षिण में चलते हुए जीवन पण्डा की ढाणी को शामिल करते हुए नगर पालिका सीमा तक तरफ पूर्व में रोड रोड चलते हुए बायें भाग का क्षेत्र को शामिल करते हुए आसीवालों की ढाणी रोड तिराहे से तरफ उत्तर में बायें क्षेत्र में बनवारी कुमावत के मकान को लेते हुए आसीवालों की ढाणी, मामोडिया की ढाणी, सूण्डाराम	1267

	मास्टर की ढाणी तरफ पूर्व में दीनदयाल चौपडा का मकान से तरफ उत्तर रोड रोड चौपडा सोहन कलालिया की ढाणी को शामिल करते हुए प्रेमनगर कालोनी को शामिल करते हुए गोरियां चैराहे तक तरफ पश्चिम में रोड रोड चलते हुए सत्यनारायण शर्मा के मकान को लेते हुए नानूराम मान को शामिल करते हुए तरफ दक्षिण में चलते हुए गुलाब जी लाम्बा एटीओ की ढाणी, मुरली गुलिया, लाला जी गुलिया की ढाणी, बाबूलाल गुलिया का मकान को शामिल करते हुए, रामलाल गुलिया को छोड़ते हुए सूरज गुलिया की ढाणी को शामिल करते हुए बिहारीपुरा रेलवे फाटक तक	
18	गोरिया आशुतोष नगर चैराहे से तरफ दक्षिण चलते हुए गोरों की ढाणी, कलालियों की ढाणी शामिल करते हुए पूर्व में चलकर सूजा नासना के मकान को लेते हुए, गोगराज जीतरवाल के मकान को लेते हुए तरफ उत्तर में सीताराम जीतरवाल, झूंथा जीतरवाल को शामिल करते हुए रायल स्कूल को शामिल करते हुए नासणों की ढाणी शामिल करते हुए नाडी वाली ढाणी, काकोडिया की ढाणी, लक्ष्मी विहार, टारगेट स्कूल के क्षेत्र को शामिल विनायक स्कूल को छोड़ते हुए मुरली यादव के मकान को शामिल करते हुए बालदास जी की बगीची को छोड़ते हुए, काल्या खाना को शामिल करते हुए आशुतोष नगर तक जहां वार्ड शुरू हुआ।	1260
19	लक्ष्मी विहार चैराहा कैलाश गोरा के मकान से दक्षिण में रोड रोड चलते हुए बायें हाथ का क्षेत्र शामिल कर छीतर नटवाडियों के मकान को लेते हुए रायल स्कूल को छोड़ते हुए कचोलिया को शामिल कर तिराहे से रोड रोड दक्षिण में चलते हुए मगन जीतरवाल को शामिल कर भगवानसहाय जीतरवाल को शामिल करते हुए तरफ पश्चिम रोड रोड चलते हुए जगदीश जीतरवाल को शामिल करते हुए सूजा नासणा को छोड़ते हुए नगर पालिका की सीमा सीमा रेल्वे लाईन के बाहर नटवाडियों को लेते हुए पालिका की सीमा के सहारे सहारे पूर्व में चलते हुए रामेश्वर टोडावता की ढाणी, बरालों की ढाणी, हनुमान गोरा की ढाणी को शामिल करते हुए रामूजी गोरा पूर्व पार्षद को शामिल करते हुए मंगलम सीटी को छोड़ते हुए रोड रोड पालिका सीमा चलते हुए इंजन वाली ढाणी को छोड़ते हुए राधास्वामी बाग स्कूल तक एवं तरफ उत्तर एन.एच. पर चलते हुए सांवरिया होटल तक व तरफ पश्चिम गणेश विहार रोड चलते हुए बायें हाथ का क्षेत्र शामिल करते हुए कचोलिया रोड पर तरफ उत्तर में चलते हुए तरफ पश्चिम में चलते हुए बायें हाथ का क्षेत्र में शामिल करते हुए लक्ष्मी विहार चैराहा कैलाश गोरा तक जहां से वार्ड शुरू हुआ।	1592
20	लक्ष्मी विहार चैराहे से तरफ पूरब में चलते हुए कचोलिया रोड तक एवं तरफ दक्षिण में चलते हुए गणेश विहार तिराहे से तरफ पूर्व में चलते हुए बायें हाथ के क्षेत्र को शामिल करे हुए एनएच तक सांवरिया होटल को	1445

	छोड़ते हुए तरफ उत्तर एन.एच. पर चलते हुए बायें हाथ के क्षेत्र को शामिल करते हुए नृसिंग मंदिर को शामिल करते हुए आर. के. फ्रेक्चर को छोड़ते हुए तरफ पश्चिम चलते हुये शिवधारा हास्पिटल छोड़ते हुए जनकल्याण हास्पिटल को शामिल करते हुए बावरियों को छोड़ते हुए तरफ पश्चिम चलते हुए कचोलिया रोड पर तरफ दक्षिण चलते हुए हनुमान जी नटवाडियों की दुकान शामिल करते हुए तरफ पश्चिम में चलते हुए विनायक स्कूल छोड़ते हुए रोड रोड तरफ दक्षिण में चलते हुए लक्ष्मी विहार चौराहे तक जहां से वार्ड शुरू हुआ।	
21	जयपुर रोड एन.एच पर आर के फ्रेक्चर हास्पिटल तिराहे से तरफ उत्तर में एन.एच. पर चलते बायें हाथ का क्षेत्र, सी.एम. चौपडा क्लिनिक, राजस्थान नृसिंग होम, समस्त अशोक विहार, चुंगी नाका, संजयबाड़ी, पटवारी क्वाटरस, हरिजन मौहल्ला, कामदारों के मकान, विजयवर्गीय कालोनी, बालदास की बगीची को शामिल करते हुए काल्याखाना को छोड़ते हुए तरफ दक्षिण रोड रोड चलते हुए विनायक स्कूल के वाली सड़क पर दक्षिण में चलते हुए विनायक स्कूल शामिल करते हुए तरफ पूर्व में चलते हुए बायं हाथ का क्षेत्र लेते हुए कचोलिया रोड पर हनुमान जी नटवाडिया की दुकान छोड़ते हुए कचोलिया रोड पर उत्तर में बावरियों को शामिल करते हुए तरफ पूर्व में चलते हुए शिवधारा हास्पिटल को लेते हुए आर. के. फ्रेक्चर हास्पिटल बायें हाथ का क्षेत्र शामिल करते हुए जयपुर रोड एन.एच. तक जहां से वार्ड शुरू हुआ।	1580
22	सुण्डिया वाली बगीची से तरफ दक्षिण में जगदीश जी बागडा, आर्य नृसिंग होम, दुर्गामाताजी का मंदिर, नाईकों की कालोनी, गिरदावर भवन, बसंत विहार, दौलतशाह बाबा, बंसल मोटर, गोयनका, बराला हास्पिटल, रिलायन्स पेट्रोल पम्प तक नगर पालिका सीमा तक समस्त बायें हाथ का क्षेत्र लेते हुए तरफ पूर्व में बाईपास पर चलते बायें हाथ का क्षेत्र शामिल करते हुए विधाग्राम अण्डरपास से पूर्व में चलते हुए विधाग्राम के कोणे से तरफ उत्तर में चलते हुए करवों को शामिल करते हुए तरफ पश्चिम में चलते हुए नन्छु टोडावता को शामिल करते हुए बाईपास के पास पास भोमाका की ढाणी को शामिल करते हुए बन्धन पैराडाईज से तरफ पश्चिम रोड रोड चलते हुए बायं हाथ का क्षेत्र शामिल करते हुए तरफ उत्तर चलते हुए लक्ष्मीनारायण खाती, शिम्भू खाती के मकान को शामिल करते हुए तरफ पश्चिम में चलते हुए राधा बाग को छोड़ते हुए सुण्डिया वाली बगीची तक जहां से वार्ड शुरू हुआ।	1366
23	भोजलावा रोड से तरफ दक्षिण में चलते हुए चौथू जी राशन डीलर को शामिल करते नगर पालिका सीमा तरफ पूर्व में भंवरलाल सैनी पूर्व पार्षद के मकान को शामिल करते हुए जादमों की छोटी-बड़ी ढाणी शामिल करते	815

	हुए तरफ उत्तर में रोड रोड चलते हुए भोमिया जी का मंदिर, सामुदायिक भवन को शामिल करते हुए बायें हाथ का क्षेत्र शामिल करते हुए तरफ पूर्व में रोड रोड चलते हुए नगर पालिका सीमा चौथू जी राशन डीलर की रोड तक जहां से वार्ड शुरू हुआ।	
24	सुभाष सर्किल छितर यादव की होटल से तरफ उत्तर रावण गेट बायें हाथ कि दुकानों को शामिल करते हुए रावणगेट से उत्तर चौपड़ की तरफ चलते हुए मस्जिद को शामिल करते हुए रामपाल जांगीड, डा. सीताराम का हास्पिटल बायां हाथ का समस्त क्षेत्र व उत्तर में चलते हुए माणकचन्द की दुकान औमजी विजयवर्गीय का मकान वैंकटा की दुकानें एवं मकान बायां क्षेत्र को शामिल करते हुए चौपड़ तक का बायां क्षेत्र को शामिल करते हुए तरफ पश्चिम में रोड रोड चलते हुए मातादीन सुनार, हनुमान भडभूज्या, नाईयों को लेते हुए होली दरवाजे तक तरफ दक्षिण शहर पनाह चलते हुए अमरचन्द एस.आई. अशोक नाणका, सिंधी कालोनी कैलाश बालम का मकान से बायें हाथ का क्षेत्र, साखुनियां, ताम्बी, भुखमारियों का मौहल्ला आदी को शामिल करते हुए शहर पनाह चलते चलते रावण गेट तक जहां से वार्ड शुरू हुआ।	1584
25	होली दरवाजा से तरफ पूरब चौपड़ की तरफ चलते हुए विश्वकर्मा मंदिर को शामिल करते हुए प्याऊ, राधेश्याम पटवा की दुकान, महेश पान भण्डार, थावरियां की दुकान, ओमजी रावत, अग्रवाल मैचिंग सेन्टर झालाणी किराणा स्टोर, विष्णु क्लोथ स्टोर, टाक जनरल स्टोर, सेठी खादी कार्यालय से तरफ उत्तर में बाबूलाल गोयल, लल्लू झालाणी को शामिल करते हुए तरफ पश्चिम में बायां हाथ गुरावा एवं दाहिने हाथ पर सीताराम दूसाद, धीया, रामेश्वर तम्बोली, महावीर स्वामी के मकानों को शामिल कर डांगीयों का मकान शामिल कर तरफ उत्तर में पटवों का मकान छीगन रामेश्वर मोरीजा का मकान, डा धमोड़ का मकान लेते हुए तरफ पश्चिम स्कूल कुमार बन्धु प्रेस का मकान शामिल करते हुए हमीद खां का मकान शामिल कर कसाईयों की मोरी के अन्दर शहर पनाह के सहारे पटवार भवन, लादूजी अग्रवाल का मकान तक बायं क्षेत्र शामिल करते हुए शहर पनाह मदरसा को शामिल करते हुए तरफ दक्षिण शहर पनाह चलते हुए बायें हाथ का क्षेत्र पटवारी मौहल्ला, धोबी मौहल्ला शामिल करते हुए होली दरवाजे तक बायें हाथ का क्षेत्र शामिल करते हुए होली दरवाजे तक।	1519
26	चौपड़ से दक्षिण रोड रोड औमजी हलवाई, मोहनजी वैध की दुकान, पाटनी स्टोर, राजेन्द्र साईकिल, चार गोखा का मंदिर, सियाराम, रेमन्डस शोरूम शामिल करते हुए डा. सीताराम के सामने खातियों का कारखाने तक बायं हाल मोहन जी वैध का चैक को शामिल करते हुए चार गोखा मंदिर से	1444

	तरफ पूर्व में दाहिने हाल भंवरसिंह नाथावत को शामिल करते हुए नाईयों को दायें बायें शामिल करते हुए गजानन्द सोनी पटवारी मुरारी पारीक का मौहल्ला शामिल करते हुए श्री जानकी वल्लभ जी मन्दिर के पीछे रास्ते से मंदिर को शामिल करते हुए तरफ उतर में चलते हुए वासुदेव गोयल, लल्लू जी गौड़ पूर्व पार्षद, पारासर शामिल करते हुए रावतों की हवेली, रावत काम्पलेक्स को शामिल करते हुए तरफ पूर्व बड़ी हवेली को शामिल कर चाचाचीचाचा व स्कूल के पुराने भवन को शामिल कर तरफ उत्तर रामपाल मेडिकल स्टोर शामिल कर सदर बाजार में तरफ पश्चिम बाजार नाका जानकी नाथ मंदिर बायें हाथ का ब्रह्मपुरी का समस्त क्षेत्र शामिल करते हुए चौपड़ तक।	
27	डा. सीताराम के सामने जाकिर लुहार से तरफ दक्षिण में चलते हुए बायें क्षेत्र को शामिल करते हुए रावण गेट तक तथा तरफ शहर पनाह के भीतर भीतर चलते हुए धोली मंडी से आने वाले रास्ते में प्रहलाद सांचोरिया के मकान तक तथा यहां से तरफ उत्तर चलते हुए खटोड़ों की हवेली शामिल करते हुए कृष्ण मंदिर रास्ते तक, तरफ पूर्व में मोहन जी यादव का मकान व बजरंग यादव का मकान को शामिल करते हुए दुर्गा पान वाले के मकान को छोड़ते हुए तरफ उत्तर चलते हुए खादी कार्यालय व रवि पारीक को छोड़ते हुए तरफ पूर्व में चलते हुए बायें एवं दाहिने क्षेत्र में यादव किराना स्टोर संतोष यादव का मकान खटोड़ों का मौहल्ला शामिल करते हुए तरफ दक्षिण घुमकर दायें व बायें क्षेत्र को शामिल करते हुए तरफ पश्चिम चलते हुए पारीकों का मकान, शंकर पत्रकार को शामिल करते हुए सम्पूर्ण बांया भाग नागौरियों का मौहल्ला शामिल करते हुए जाकीर के मकान तक	1342
28	एन.एच. बस स्टेण्ड बावडी से सेढ माता मंदिर शामिल करते हुए बावडी गेट तक व तरफ उत्तर में शहर पनाह के सहारे सहारे मीणा मौहल्ला, पारीक मौहल्ला, खुम्हारों का मौहल्ला, फूटा डंडा होते हुए पीवाले गेट तक तरफ पश्चिम में शहर पनाह के अन्दर अन्दर हमीद खां के मकान को छोड़ते हुए पठानों को शामिल करते हुए डा. धमोड़ के मकान को छोड़ते हुए तरफ दक्षिण में चलते हुए धोबियों, कन्हैयालाल ताम्बी को शामिल करते हुए लल्लू जी झालाणी को छोड़ते हुए तरफ दक्षिण चलते हुए बाबूलाल गोयल को छोड़ते हुए त्रिपोलिया बाजार, जुगल क्लोथ स्टोर से तरफ पूरब में हनुमानजी मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी चौक का बायां क्षेत्र शामिल करते हुए तरफ पूरब में चलते हुए बायें क्षेत्र के लुहारों को शामिल करते हुए बावडी गेट तक	1572
29	कलन्दरी मस्जिद से तरफ पश्चिम में संजय पार्क थावरियों धर्मशाला शामिल करते हुए बावडी गेट बायें क्षेत्र का मीणा मौहल्ला, बाबूलाल	1205

	<p>पहलवान का मकान बायें क्षेत्र के लुहारों को शामिल करते हुए लक्ष्मीनाथ जी चौक से तरफ पश्चिम मनीष गोयल की दुकान अशोक विजयवर्गीय की दुकान बायें क्षेत्र के भडबूज्यों को शामिल करते हुए भूरजी हलवाई की दुकान सूरजभगवान का मंदिर शामिल करते हुए तरफ दक्षिण में खूर पर चलते हुए रावला चैक रा.उ.बा. विधालय व राजकीय हास्पिटल को शामिल करते हुए रणजीत टेलर को लेते हुए बड़ी हवेली को छोड़ते हुए तरफ दक्षिण में विवेकानन्द पार्क की तरफ चलते हुए आशीष दुसाद पूर्व अध्यक्ष के मकान व खादी कार्यालय को व विवेकानन्द पार्क को लेते हुए तरफ पश्चिम रवि पारीक के मकान को शामिल लेते हुए दक्षिण में खादी कार्यालय , इन्द्रेष बाल निकेतन स्कूल को शामिल करते हुए तरफ पश्चिम में दुर्गा पान वाले मकान व बायें क्षेत्र. को शामिल करते हुए कृष्ण मंदिर के सामने दक्षिण में चलते हुए रामावतार स्वामी कालूजी सांचोरिया को शामिल करते हुए तरफ पूर्व परकोटे के अन्दर अन्दर चलते हुए तरफ उत्तर में विधासागर चौधरी को लेते हुए खुर्च के पास वाली कालोनी, ज्योतषी व बायें क्षेत्र को शामिल करते हुए सोहन घड़ीसाज को लेते हुए हास्पिटल को लेते हुए रावला चौक तक व तरफ पूरब में गणेश जी मन्दिर, धर्मशाला होते हुए नगर पालिका के सामने एन.एच तक तरफ उत्तर में कलन्दरी मस्जिद तक</p>	
30	<p>थाना चैराहा सुधाकर पैट्रोल पम्प से तरफ उत्तर एन.एच चलते हुए बायें क्षेत्र यूको बैंक मोहन यादव , गोरी दलाल की दुकान बडौदा बैंक के बायें क्षेत्र को शामिल करते नगर पालिका के सामने तरफ पश्चिम में पुरानी मंडी परिसर चौमूं पैलेस को शामिल करते हुए रावला चौक तरफ दक्षिण में हास्पिटल कि अन्दर हास्पिटल को छोड़ते हुए नहर के सहारे सहारे सोहन घड़ीसाज की दुकान मकान को छोड़ते हुए मेडिकल को शामिल करते हुए शहर पनाह के सहारे सहारे दक्षिण चलते हुए बायें क्षेत्र रामा सोनागाफी गवारियों की मौहल्ला शामिल करते हुए बिरदीचन्द कुमावत को छोड़ते हुए धोली मंडी तक तरफ पूर्व में रोड रोड चलते हुए आर्केड माल, हनुमानजी मन्दिर व बायें क्षेत्र शामिल करते हुए थाना चौराहे तक</p>	1356
31	<p>थाना मोड से किशनलाल योगी की दुकान, महेश वैध यहा से तरफ हनुमान बारगोडिया, बृजराज का मन्दिर, रुडानाथ का मकान, मदन, देवीसहाय का मकान, बधाला चैम्बर, पूरण की चक्की, सागर होटल के पीछे, लाला मिस्त्री, जसरफ खां, सुमान खां यहां से तरफ उत्तर गणगौरी चौक, न्यारियों का मौहल्ला, सरोज स्वामी का मकान, व्यास मार्केट, रामावतार कुलदीप की दुकान से शर्मा ज्यूस सेन्टर, नगर पालिका कार्यालय, सागर होटल, बराला हास्पिटल, एचडीएफसी बैंक, सब्जी मंडी रोड, भागीरथ बागडा का मकान, तेजपाल यादव की दुकान तरफ उत्तर</p>	1480

	रमेष मीणा का मकान, नगर पालिका कियोस्क, गोपाल जोगी के मकान तक यहां से तरफ पूरब शनि मन्दिर के पीछे कालोनी में युनुस भाई, अल्लानूर, गफूर खां, मुस्ताक खां, मनवर खां, अजिज खां, अनिफ खां, इकबाल, शब्बीर अली का मकान तथा निजामूदीन लीलगर, कबीर मामा व शाबिर अली वाली गली के मकान से मण्डी की दीवार तक का दायें हाथ का क्षेत्र, शनिचर मन्दिर से तरफ पूरब मुरलीधर योगी तरफ उत्तर किशनलाल, भंवरलाल योगी, पूरणी देवी, गोरधनालाल, बाबूलाल रेवड वाले का मकान, डा. कैलाश का मकान, ताज मोहम्मद शाह, नवी शाह, रज्जाक तारों वाले का मकान, नवी न्यारियां, इकबाल शाह बैण्डवाला, चौथमल योगी, चन्दनमल एवं राजेश चौपडा का मकान, श्री पान वाले से लेकर महादेव चैपडा, मनसुख योगी, रिषपाल योगी, गोपाल योगी के मकान, जैन ट्रेडर्स तक एवं थाना मोड तक	
32	मोरीजा रोड, कृषि उपज मंडी समिति गेट से मोरीजा रोड तरफ पश्चिम में चलते चलते चौधरी ढाबा, राज होटल, बंशी मीणा के मकान, राहुल टैन्ट हाउस, गोयल मील तक तथा यहां से तरफ दक्षिण जमालहाजी का मकान, मदन लीलगर, सलामत खां मकान तथा यहां से तरफ पूरब मोहम्मदी मस्जिद, सिराज लुहार का मकान, मन्सूर तेली एवं कुए की तरफ चलते हुए श्मशान भूमि के पीछे मस्जिद शाह के मकान तक मदीना कालोनी, मस्जिद अण्डे वाले के मकान से वापसी दक्षिण पश्चिम कुए के पास अजीज बैग का मकान यहां से गुलाब का मकान नजीर शाह का मकान, बहलोल खां की कालोनी को लेते हुए शहीद खां, नजीज का मकान, अब्दुल लतीफ का मकान से शोकत की चक्की को लेते हुए तथा यहां से पश्चिम शिव मन्दिर तक तरफ पूरब चलते हुए रमजान लीलगर नईम कुरेशी के मकान तक मण्डी के परकोटे के सहारे सहारे मदीना कालोनी, रमजान तेली के मकान से हबीब शाह, छीतर शाह, मिठू कुरेशी से होते हुए इकबाल गौरी, महमूद इकलाख गौरी तथा शिव मन्दिर के पीछे का बाग बाबू भाई शकील भाई का मकान से मण्डी के उत्तर क्षेत्र को शामिल करते हुए मण्डी गेट तक।	1602
33	पुलिस थाना चौमूं से तरफ दक्षिण चलते हुए जलदाय विभाग को शामिल करते हुए तरफ पूर्व में सुंदिया की बगीची को छोड़ते हुए सब्जी मड़ी शामिल करते हुए किसान धर्म कांटे को छोड़ते हुए तरफ पूर्व में चलते हुए कमल जैन वकील वैथ नन्दकिशोर के मकान को लेते हुए भोजलावा रोड पर तरफ दक्षिण में लुहारों का शामिल करते हुए पुलिस क्वाटर छोड़ते हुए तरफ पूरब में बायें क्षेत्र के लुहारों को शामिल करते हुए हाई टैक्सन लाईन तक तरफ उत्तर में रीछपाल मीणा के मकान को शामिल करते हुए तरफ	1427

	पश्चिम में गोपाल लाल वर्मा को छोड़ते हुए तरफ उत्तर आशा निकेतन स्कूल को शामिल करते हुए मातादीन अग्रवाल, अर्जुन बालाणी के मकान को शामिल करते हुए श्रीनारायण स्कूल को शामिल करते हुए मोरीजा रोड, शिव शक्ति रोड केरियर तक तरफ पश्चिम में बायें हाथ पर मालीराम अग्रवाल को शामिल करते हुए मण्डी रोड अनाज मंडी समस्त राधा बाग शामिल करते हुए सब्जी मंडी रोड तहसील क्वाटर शामिल करते हुए थाना मोड तक	
34	भोजवाला रोड पुलिस क्वाटर तरफ दक्षिण में चलते हुए बंधे की पाल के पास पूरब में रोड रोड चलते हुए बायें हाथ का क्षेत्र शामिल करते हुए न्यू टैगोर पब्लिक स्कूल शामिल करते हुए तरफ उत्तर में गोविन्द कुमावत गिर्ज नगर को शामिल करते हुए गंगासहाय ठेकेदार को लेते हुए पालिका सीमा मोरीजा रोड पुलिया तक मोरीजा रोड पुलिया से तरफ पश्चिम में चलते हुए आदित्य नगर एस.एस. महिला हास्पिटल सांगा मोटर्स, श्रीराम नगर ओमप्रकाश के मकान को शामिल करते हुए जांगीड फर्नीचर की दुकान गली में श्री नारायण स्कूल को छोड़ते हुए तरफ दक्षिण में रोड रोड चलते हुए आशा निकेतन स्कूल को छोड़ते हुए गोपाल वर्मा को लेते हुए तरफ पूरब में रीछपाल मीणा को छोड़ते हुए हाई टेंशन लाइन के नीचे चलकर रोड तक तरफ पश्चिम पुलिस क्वाटर भोजलावा रोड तक	1279
35	मोरीजा रोड तिराहा अशोक प्लाजा से तरफ पूरब में मोरीजा रोड पर भारत टाकीज को शामिल करते हुए बायां हाथ के क्षेत्र को मेहता टैक्सटाईल्स, बसंत प्लाजा, पावर हाऊस की दीवार से तरफ उत्तर नहर नहर चलते हुए कैलाश कुमावत के मकान व कारखाने को लेते हुए तरफ पूरब में कबिला रेस्टोरेन्ट को शामिल करते हुए तरफ उत्तर में प्रजापति छात्रावास एवं लक्ष्मीनारायण मीणा के मकान को शामिल करते हुए एवं बायें क्षेत्र को शामिल करते हुए रोड रोड तरफ उत्तर चलते हुए किशोर जी खटीक को लेते हुए रोड से तरफ पश्चिम में बायें हाथ को लेते हुए सुंदर गार्डन को शामिल करते हुए, तरफ पश्चिम में जोगियों को लेते हुए एन.एच. बन्धे तक तरफ दक्षिण रोड रोड चलते हुए चौब्या रामसहाय चान्दोलिया की दुकानें, गोयल आयल मील तरफ पश्चिम में सुन्नी शाही मस्जिद को लेकर तरफ उत्तर कासम कुरेशी का मकान लेकर तरफ पश्चिम में यासीन खां के मकान तक तरफ दक्षिण में महबूब खां ठेकेदार को शामिल करते हुए फुट्या डंडा तक का बांया क्षेत्र शामिल करते हुए शहर पनाह के सहारे दायें बायें हाथ का क्षेत्र अशोक प्लाजा तक	1433
36	मोरीजा रोड पावर हाऊस से तरफ से पूर्व में चुंगी नाका, कृष्णा कालोनी, लक्ष्मण धर्म कांटा को लेते हुए मोरीजा रोड बाईपास पुलिया तक तरफ उत्तर नगर पालिका सीमा चलते हुए जोगियों को शामिल करते हुए आर	1330

	चन्द्रा विवाह स्थल राघव स्कूल से तरफ पश्चिम रोड रोड चलते हुए सायर बागड़ी के मकान को लेते हुए श्याम कुंज सरोवर, सरस्वती विहार, महिला कालेज लेते हुए, किशोर खटीक के मकान को छोड़ते हुए तरफ दक्षिण में रोड रोड चलते हुए लक्ष्मीनारायण मीणा, प्रजापति छात्रावास, कबिला रेस्टोरेन्ट को छोड़ते हुए तरफ पूरब में नहर तक कैलाश कुमावत को छोड़ते हुए तरफ दक्षिण नहर नहर चलते हुए बायां हाथ का क्षेत्र लेते हुए मोरीजा रोड पावर हाउस तक	
37	रघुनाथ दास जी की बगीची के पास भंवरलाल कुमावत की दुकान से पश्चिम की ओर रंगशाला, रामावतार कुलदीप के मकान को शामिल करते हुए, संतोष कुलदीप, कालू, कैलाश राणा को छोड़ते हुए तरफ दक्षिण पश्चिम में रामदयाल जलुथरिया एवं कैलाश कुलदीप को छोड़ते हुए एवं इन्दूरानी पार्षद का मकान एवं आस-पास के मकानात लेते हुये पट्टियों के बाड़े तक तथा यहां से तरफ पूरब में बाये हाथ को सम्मिलित करते हुये गंगा माता का मन्दिर श्री बालाराम रैगर का मकान, श्री बिहारीलाल जमादार, रामेश्वर बागोरिया का मकान तथा यहां से हरिकिशन बागोरिया के मकान एवं बायें हाथ का समस्त क्षेत्र शामिल करते हुये बच्चा पार्क को छोड़ते हुये तरफ उत्तर चलते बंशीधर बागोरिया भागीरथ के मकानों को लेते हुये सूरज भवन शामिल करते हुये सेढ माता का मन्दिर चैक तथा यहां से बिरदीचन्द कटारिया का मकान सामरिया भवन हजारी बाग तक का समस्त बायें क्षेत्र, श्री भंवरलाल कुमावत की दुकान आमलियां तक।	1643
38	बच्चा पार्क से तरफ पश्चिम शुरू होकर भागीरथ, मालीराम का मकान तथा रामदयाल टांक के मकान को लेते हुये पश्चिम चलते हुये सामुदायिक भवन व स्कूल से चलते हुये हरिनारायण रैगर मकान दुकान तथा से श्री हरिनारायण का मकान तक समस्त बायें हाथ का क्षेत्र तथा तरफ दक्षिण चलते चौढाणी का छोड़ते हुये, राजू भूरा कंकरवाल, बाबूलाल प्रभातीलाल बेरीवाले को शामिल करते हुए धानको का मौहल्ला तथा राजेश वर्मा के मकान तथा समस्त बायें भाग धानका व रैगरों के मौहल्ले को लेते हुये तथा घूमकर डा हरिनारायण का मकान एवं बुनकरों के मकान को लेते हुये रमेष के मकान व शिव मन्दिर को छोड़ते हुये शहर पनाह के सहारे सहारे रतनलाल हरिजन, छोटू राधेश्याम गिरदावर तक बायें हाथ क्षेत्र शामिल करते हुये यहां से गजानन्द बागोरिया तैलियों के मकान एवं गोपाल लाल बागड़ी बागोसियों की मोरी तक एवं यहां से उत्तर चलते हुये गौरीशंकर बुटोलिया के मकान लेते हुये बच्चा पार्क तक जहां से वार्ड शुरू हुआ का समस्त क्षेत्र	1525
39	रींगस रोड कालका माता मन्दिर रामदेव जी का मन्दिर के पास श्री भगवानसहाय, सुगनचन्द गंगवाल, जौहरी की आटा चक्की से रुडमल	1467

	बुकसेलर के मकान, हरिनारायण कटारिया के मकान से मंगलचन्द लल्लूउलाला अधोप्या, खातियों के मकानों के लेते हुये सुन्दर बागोरिया का मकान लेते हुये बच्चा पार्क के छोड़ते हुये आमीन मणियार, मोतीलाल बागोरिया एवं किशन खुम्हार का मकान लेते हुये यहां से बागसियों की मोरी पहुंचकर शहर पनाह के सहारे सहारे उमरदीन कुरेशी का मकान जहूर कुरेशी बिरजू बूटोलिया, बालजी बागड़ी एवं यहां से टांक एवं पठानों के मकान लेते हुये व यहां से घुमकर तरफ उत्तर बाये हाथ पठानों की मस्जिद छोड़ते हुये गोशाला राजकीय संस्कृत विधालय नाथू माली के मकान से सुन्दर जांगीड शिव कालोनी जाने वाले रास्ते में सीता नर्स के मकान को छोड़ते हुए तरफ विष्णुकान्त शर्मा वकील मालीराम सैनी ड्राईवर नाईयों का मकान एवं नन्दा गुर्जर के मकान को लेते हुए शिव मन्दिर को छोड़ते हुये तथा समुन्द्रसिंह के मकान को लेते हुये बायें हाथ का समस्त क्षेत्र शामिल करते हुये सूरजमल जाट के मकान तक एवं यहां से उत्तर चलते हुये श्रवण देवन्दा, भोमाराम सैनी कमीशनर एवं चांदोलिया क्लोथ स्टोर तक बायें हाथ क्षेत्र लेते हुये एवं तरफ पश्चिम घुमकर भींवाराम सुवालाल बागड़ी का मकान जौहरी बूटोलिया टीकमचन्द गंगवाल के निवास से चलते चलते जयनारायण गंगवाल तक के समस्त बायां क्षेत्र शामिल करते हुये कालका माता, रामदेवजी के मन्दिर तक जहां से वार्ड शुरु हुआ तक।	
40	बदनपुरा के पास ईमाम चौक जाने वाले अधोप्या के मकान से नवल मिस्त्री से बायें हाथ का क्षेत्र शामिल करे हुये आनन्द हास्पिटल से पठानों की मस्जीद, ईमाम चौक तरफ पूर्व में गोपाल कुम्हार को शामिल करते हुए व कुम्हार व पठानों का शामिल करते हुए तरफ पूर्व में चलते हुए कुम्हारों के चौराहे से दक्षिण पूर्व में चलते हुए सैनी धर्म कांटे तक एन.एच पर एवं तरफ उत्तर में अंकित रेस्टोरेन्ट सैनी हास्पिटपल बाबूलाल बागड़ी के मकान दुकानें को शामिल करते हुए महेन्द्रा मोटर्स से तरफ उत्तर चलते हुए सेठाणी डाक बंगला को शामिल करते हुए तरफ पश्चिम में रोड रोड चलते हुए एसीपी कार्यालय माधाणी पैट्रोल पम्प को लेते हुए रोड रोड पश्चिम में चलते हुए रामनाथ चांदोलिया अशोक बागड़ी अग्रवाल कालोनी, धनजी खाती आदि के मकानों को लेते हुए चौपडा कन्सटेक्शन कालूराम मेड्या के मकान दुकान तक तरफ दक्षिण चलते हुए जगमाल प्रहलाद मीणा, गोपाल स्वामी दूध वाले का बायां क्षेत्र शामिल करे हुए रोड रोड चलते हुए टर्न पर सीता नर्स के बायें भाग में शामिल करते हुए अधोप्या के मकान तक।	1470
41	पी वाले गेट के बाहर इमाम चौक से बस स्टेण्ड जाने वाले रास्ते पर शहर पनाह के सहारे फौजदार खां का मकान शामिल करते हुए फूटया डंडा तक	1549

	दायें बायें हाथ का क्षेत्र को लेते हुए तरफ पूरब महबूब खां ठेकेदार के मकान को छोड़ते हुए यासीन खां के मकान के लेते हुए कासम कुरेशी के मकान को छोड़ते हुए तरफ दक्षिण चलते हुए सुन्नी शाही मस्जिद को छोड़ते हुए एन.एच से तरफ उत्तर ओम धर्म कांटा, फड़या, सैनी धर्मशाला को शामिल करते हुए गणेश टेन्ट हाउस से तरफ पश्चिम उत्तर में सैनी धर्म कांटे को छोड़ते हुए कुम्हारों का मौहल्ला चौराहे तक चौराहे से तरफ पश्चिम रोड रोड चलते हुए बायें हाथ में कुम्हारों, नाईयों इत्यादि को शामिल करते हुए गोपाल कुम्हार के मकान को छोड़ते हुए अल्लाबेली के मकान को शामिल करते हुए पी वाले गेट तक	
42	एन.एच. सामोद रोड तिराहा वीर हनुमान जी मन्दिर से तरफ पूर्व में घासीराम कुमावत, देव हास्पिटल को लेते हुए रामसहाय माली के मकान शामिल करते हुए सायर बागड़ी के मकान को छोड़ते हुए बाईपास तक तरफ उत्तर तरफ बायें हाथ का क्षेत्र शामिल करते हुए सामोद पुलिया जय अम्बे जनरल स्टोर से तरफ पश्चिम रोड रोड चलते हुए दरोगा, कांकरवाल, सरकार हास्पिटल, हाथी टीबा को शामिल करते हुए गैस गोदाम को छोड़ते हुए तरफ पश्चिम में चलते हुए सम्पूर्ण कैलाश विहार कालोनी को लेते हुए वीर हनुमानजी के रास्ते चौराहे से तरफ दक्षिण में चलते हुए बायें हाथ का क्षेत्र लेते हुए एन.एच. तक तरफ पूरब में रोड रोड चलते हुए जमादार, राधा कृष्ण गार्डन, खान धर्म कांटा को शामिल करते हुए चौमूँ आई हास्पिटल को शामिल करते हुए वीर हनुमान जी मन्दिर तक	1482
43	सामोद रोड अग्रवाल गैस गोदाम से महेन्द्रा मार्केट, गणेश गार्डन को शामिल करते हुए, राजेन्द्र सैनी पार्श्व इन्डौरा की ढाणी तरफ पूरब में सामोद रोड एस.एम. मोर्टर्स का रास्ता पर कप्तानवाली कोठी पलदारों को शामिल करते हुए गीदावाली कोठी रामरत्न तंवर, सायर तंवर के मकान को लेते हुए बालजी तंवर, मोहन वाटिका, कुम्हार जोगी कालोनी बाईपास पुलिया तक व पुलिया क्रोस कर सिंगोदिया की ढाणी, तरफ दक्षिण में बाईपास के सहारे सहारे चलकर बायें हाथ पर देवन्दा, साणडया, लल्लूजी बागड़ी का मकान लेते हुए तरफ पूर्व उत्तर में रामरत्न जी मुनीम की ढाणी, नानगराम धोप्या भागीरथ मीणा को लेते हुए नाथूराम नटवाडिया, आबकारी व आर.टी.ओ. कार्यालय, वीर हनुमान जी के रास्ते तुलसी हलवाई, तरफ दक्षिण चलते हुए संस्कृत स्कूल को शामिल करते व स्टेडियम को छोड़ते हुए श्यामजी भद्रिया, राधेश्याम बेरीवाले, नेहरु, सुवालाल मीणा, सेहूराम तंवर, रामचरण भद्रिया व बायें क्षेत्र को शामिल करते हुए कैलाश विहार को छोड़ते हुए तरफ पूर्व में एम.जे.एफ. को शामिल करते हुए नाले से गैस गोदाम तक।	1381

44	<p>वीर हनुमानजी का रास्ता लालचन्द इन्दौरा की दुकान से वीर हनुमान जी रोड चलते हुए पूरब कैलाश विहार को छोड़ते हुए न्यू सनसराईज स्कूल, बाबूलाल जंगिड, खेल स्टेडियम, पुटयावाली, ढेहर की ढाणी को शामिल कर बायां हाथ का क्षेत्र लेते हुए नगर पालिका सीमा सीमा बांवरियो की ढाणी, बरालों की कोठी तरफ पश्चिम प्रभात बागडी, शिव सीटी, रोज पब्लिक स्कूल, बाईपास बाबूलाल बागडी कचरा डिपो तहसीलदार वाली कोठी, पुरोहितों की कोठी, मीणा लेते हुए नाले नाले तरफ दक्षिण महामाया मन्दिर को शामिल करते हुए बायां हाथ में खड़ोत्यों की ढाणी, राजावाली कोठी, रामसहाय इन्दौरा को लेते हुए लक्ष्मी विहार को छोड़ते हुए श्यामलाल इन्दौरा के मकान को छोड़ते हुए रामकरण भोलूराम जगदीश मिस्त्री से नाले तक तरफ पश्चिम चलते हुए डी सिद्धार्थ स्कूल छोड़ते हुए पूर्व पार्षद मनभरी देवी, चान्दोलिया की रोड तक तरफ दक्षिण में चलते हुए डा राकेश सैनी को लेते हुए पावर हाउस आमलियां एन.एच तरफ पूरब चलते हुए रामप्रसाद इन्दौरा, सेलो फर्नीचर लेते हुए बांया हाथ का सम्पूर्ण क्षेत्र शामिल करते हुए वीर हनुमान जी चैराहे एन.एच तक</p>	1594
45	<p>आमलिया कब्रिस्तान से तरफ उत्तर चांदोलिया रोड पर चलते हुए रामेश्वर बागडी के मकान तक तरफ पूरब चलते रामनारायण कुमावत, कल्याण लड्डेवाला डी सिद्धार्थ स्कूल को शामिल करते हुए बांया हाथ का क्षेत्र लेते हुए लालचन्द इन्दौरा को लेकर तरफ उत्तर गोपाल छीतर श्यामलाल इन्दौरा को लेते हुए, रामकरण इन्दौरा को छोड़ते हुए इन्दौरा कालोनी, शिवाजी नगर लक्ष्मी विहार को शामिल करते हुए नाले तक नाले चलकर बाईपास तक डा जे. पी सैनी ईश्वर बावल्या को शामिल करते हुए पालिका सीमा तक तरफ पश्चिम में हाडोता सीमा पर राधेश्याम वीरपन्न को छोड़ते हुए चांदोलिया की ढाणी, बोडी कोठी को शामिल करते हुए ईश्वर चांदोलिया से पालिका सीमा बायां हाथ का क्षेत्र व बोटू माली की ढाणी एन.एच तक तरफ दक्षिण में बिरदीचन्द कुमावत, रतन देवी आई.टी.आई. कटारियों की ढाणी, राँझ्यों की ढाणी, तंवर टेन्ट हउस, नन्छूराम सैनी लाईनमैन, घरट वाले चौथमल जी पूर्व चैयरमेन को मकान लेते हुए बायां हाथ का क्षेत्र लेते हुए आमलियां कब्रिस्तान तक</p>	1606

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका चौमूँ

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।